




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 816]
No. 816]

नई दिल्ली, बुधस्वतित्वार, दिसम्बर 30, 1999/पौष 9, 1921
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1999/PAUSA 9, 1921

शहरी विकास मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

का. आ. 1308 (अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) के खंड 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 11-12-1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3 (ii) में का. आ. 864 (अ) के रूप में प्रकाशित गजट अधिसूचना द्वारा नियुक्त दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो 2-12-1999 तक इन पदों पर बने हुए थे, वे अगले आदेश होने तक दिल्ली नगर कला आयोग के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य बने रहेंगे।

[सं. ए-11013/1/99-डीडी-1 ए]
बी. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Department of Urban Development)

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th Decmber, 1999

S. O. 1308(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government has decided that the Chairman and Members of the Delhi Urban Art Commission appointed vide Gazette Notification published as S. O. 864(E) in Part II, Section 3 (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated 11-12-1996 and who were in position till 2-12-1999, would continue as Chairman and Members respectively of the Delhi Urban Art Commission till further orders.

[No A-11013/1/99-DD-IA]
B. S. MINHAS, Jt Secy

